



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 फाल्गुन 1936 (श0)  
(सं0 पटना 335) पटना, मंगलवार, 24 फरवरी 2015

---

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश  
18 फरवरी 2015

सं0 07/नि.(विधि-06) के.सह.अधि.-03/2009-990—चूंकि, इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 4295 दिनांक 23.09.2013 द्वारा परिसमापनाधीन दि छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., छपरा के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ श्री कुन्दन कुमार, तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को दि छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सारण, छपरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परन्तु इनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए परिसमापनाधीन उक्त प्रासंगिक बैंक में परिसमापक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, हुकुम सिंह मीणा, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा- 44(2) एवं तदनुसार बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 64(2) के अन्तर्गत, श्री दीपक आनन्द, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को परिसमापनाधीन दि छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., सारण, छपरा का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

आदेश से,  
हुकुम सिंह मीणा,  
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 335-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>